



## प्रेस नोट थाना अमरोहा नगर

दिनांक 05.06.2021

### 04 गौवंशीय गिरफ्तार, कब्जे से कटान के उपकरण, अवैध असलहे, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमति सुनीति पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व, श्री अजय प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सतीश पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा कल दिनांक 04.06.2021 की शाम गौकशी करने वाले 04 बदमाशों को मय गौवंशीय अवशेष व अवैध असलहों व मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया ।

अवगत कराना हैं कि कल दिनांक 04.06.2021 की शाम थाना अमरोहा नगर पर सूचना मिली कि " कौट चौराहा की तरफ से दो व्यक्ति एक स्पलेन्डर मोटर साइकिल से संदिग्ध सामग्री एक प्लास्टिक के बोरे में लेकर आने वाले हैं " इस सूचना पर अमरोहा नगर पुलिस टीम बताये गये स्थान पर मोटर साइकिल व व्यक्तियों को इन्तजार करने लगी कि कुछ देर बाद नौबतखाना की तरफ से 02 व्यक्ति मोटर साइकिल पर सवार आते दिखाई दिये जोकि पुलिस टीम को देखकर मोटर साइकिल दौडाकर भागने लगे जिनका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया व कुरैशी चौपाल वासूदेव रोड से मोटर साइकिल सवार एक अभियुक्त शमशाद को गिरफ्तार किया गया जिसका एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया । गिरफ्तार अभियुक्त शमशाद के कब्जे से स्पलेन्डर मोटर साइकिल रजि0न0 UP16 CE7530 (फर्जी नम्बर प्लेट लगी) पर रखे एक प्लास्टिक के कट्टे मे 04 पैर गौवंशीय पशु व अपशिष्ट पदार्थ व 01 तमंचा, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुये । गिरफ्तार अभियुक्त शमशाद ने पुछताछ पर अपने साथियों के साथ मिलकर मौ0 कसाईखाना में 02 गौवंशीय पशुओं को अभियुक्त जुनैद के घर काटना बताया गया । इस सूचना पर थाना अमरोहा नगर पुलिस टीम द्वारा मौहल्ला कसाईखाना में दबिश देकर तीन अन्य अभियुक्त 1. जुनैद 2. ऊसामा व 3. ऊसामा को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से घर के अन्दर से काटे गये गौवंशीय पशु के 04 पैर, अपशिष्ट पदार्थ, 01 तमंचा, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व 02 नाजायज चाकू बरामद हुए । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अमरोहा नगर पर मु0अ0स0 216/2021 धारा 420,269,270 भादवि 5, 3/5ए/8 गौवध अधि0 11 पशु क्रूरता अधि0 54 आपदा प्रबंधन अधि0, मु0अ0स0 217/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम शमशाद, मु0अ0स0 218/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम जुनैद व मु0अ0स0 219/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम ऊसामा व मु0अ0स0 220/21 धारा 4/25 आयुद्ध बनाम

ऊसामा उपरोक्त पंजीकृत किया गया । फरार अभियुक्त साजिद की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है ।



### पुछताछ विवरण:-

अभियुक्तगणों ने पैसा कमाने हेतु मौहल्ला कसाईखाना में घर के अन्दर गौवंशीय पशु को काटकर उसका मांस आसपास के क्षेत्रों में बरामद मोटर साइकिल से परिवहन कर जगह-जगह बिक्री करना बताया गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. शमशाद पुत्र इशितयाक निवासी ग्राम ढक्का थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।
2. जुनैद पुत्र अखलाक निवासी कसाईखाना मौ0 बंगला थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
3. ऊसामा पुत्र नसीम निवासी मौ0 सफातपोता थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
4. ऊसामा पुत्र नईम मौ0 सफातपोता थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

### फरार अभियुक्त:-

1. साजिद पुत्र बदलू निवासी ग्राम अतरासी थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।

### बरामदगी:-

1. 08 पैर गौवंशीय व अपशिष्ट पदार्थ गौवंशीय ।
2. 02 तमंचे 315 बोर व 03 जिंदा कारतूस 315 बोर व 02 चाकू नाजायज ।
3. घटना में प्रयुक्त स्पलेन्डर मोटर साइकिल रजि0न0 UP16 CE7530 (फर्जी नम्बर प्लेट लगी) ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त शमशाद पुत्र इशितयाक:-

1. मु0अ0स0 216/2021 धारा 420,269,270 भादवि 5, 3/5ए/8 गौवध अधि0 11 पशु क्रूरता अधि0 54 आपदा प्रबंधन अधि0 थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

2. मु0अ0स0 217/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त जुनैद पुत्र अखलाक:-

1. मु0अ0स0 216/2021 धारा 420,269,270 भादवि 5, 3/5ए/8 गौवध अधि0 11 पशु क्रूरता अधि0 54 आपदा प्रबंधन अधि0 थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

2. मु0अ0स0 218/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त ऊसामा पुत्र नसीम:-**

1. मु0अ0स0 216/2021 धारा 420,269,270 भादवि 5, 3/5ए/8 गौवध अधि0 11 पशु क्रुरता अधि0 54 आपदा प्रबंधन अधि0 थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

2. मु0अ0स0 219/2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त ऊसामा पुत्र नईम अहमद:-**

1. मु0अ0स0 216/2021 धारा 420,269,270 भादवि 5, 3/5ए/8 गौवध अधि0 11 पशु क्रुरता अधि0 54 आपदा प्रबंधन अधि0 थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

2. मु0अ0स0 220/2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

**अभियुक्तगणों के शेष अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।**

**पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रामप्रसाद शर्मा थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

2. उ0नि0 श्री रामकुमार वशिष्ठ थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

3. का0 1103 अनिल कुमार थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

4. का0 144 अनुज कुमार थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

